



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2072]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2009/अग्रहायण 17, 1931

No. 2072]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2009/AGRAHAYANA 17, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2009

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2009

का.आ. 3154(अ).—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ज्ञान चन्द, अपर जिला एवं सेशन जज, बाराबंकी को 26-11-2009 (पूर्वाह्न) अर्थात् पद भार ग्रहण करने की तारीख से उनके 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पे बैंड 4 में 37,400-67,000 रु. के वेतनमान और 10,000 रु. के ग्रेड पे (सीधे भर्ती के लिए प्रवेश वेतन) में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, लखनऊ में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री ज्ञान चन्द, पीठासीन अधिकारी की सेवा शर्तें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया), नियमावली, 2003 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण (पीठासीन अधिकारी का वेतन, भत्ते एवं कार्यकाल और सेवा शर्तें) नियमावली, 2005 द्वारा संचालित होंगी।

[फा. सं. एनएच-11014/2/2004-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

S.O. 3154(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Control of National Highway (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the President is pleased to appoint Shri Gyan Chandra, Additional District and Sessions Judge, Barabanki as Presiding Officer in the National Highway Tribunal (NHT), Lucknow in the pay scale of Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000 in Pay Band 4 (Entry pay for Direct Recruit) with effect from 26-11-2009 (FN) i.e. the date of assumption of the charge of post till he attains the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier.

2. The conditions of Service of Shri Gyan Chandra, Presiding Officer shall be governed by the National Highway Tribunal (Procedure for Appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Rules, 2003 and the National Highway Tribunal (Salaries, Allowances and Other Term and Conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 2005.

[F. No. NH-11014/2/2004-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.